

तुरंत रिलीज के लिए

**सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 11 जून को, सुरक्षा पाबंदियों के साथ, सभी पार्क दुबारा खोलेगी
पार्क हर रात 10 बजे बंद होंगे**

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (8 जून, 2020) – पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, वीरवार, 11 जून को सभी 500 से अधिक पार्कों को दुबारा खोलेगी। इसमें शामिल हैं, छाया वाले खुले और पिकनिक शेल्टर, बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्क (डॉग पार्क), व्हाइट स्प्रूस पार्क (White Spruce Park) डिस्क गोल्फ कोर्स और स्केटिंग वाले पार्क (सिवाय चिंगकूजी पार्क (Chinguacousy Park) में स्केटिंग करने के)। पार्क हर रात, 10 बजे बंद हो जाएंगे। टेनिस और पिकलबॉल कोर्ट, पील विलेज गोल्फ कोर्स (Peel Village Golf Course) और ब्रैम्पटन सेमेटरी (Brampton Cemetery) भी खुले रहेंगे।

सभी प्लेग्राउंड और खेलने की जगहें, स्पोर्ट्स फील्ड और सुविधाएं, आउटडोर फिटनेस उपकरण, आउटडोर स्विमिंग पूल्स, स्पलैश पैड्स/बच्चों के पूल्स, वॉशरूम और पीने के पानी के सिस्टम बंद रहेंगे और जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

सामुदायिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय के तौर पर, इन सुविधाओं के बंद होने के समय जनता को उपयोग से रोकने के लिए, सभी आउटडोर प्लेग्राउंड और फिटनेस उपकरणों पर संतरी रंग की प्लास्टिक की बाड़ लगाई जाएगी।

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि ओन्टैरियो सरकार (Ontario Government) के एमरजेंसी आदेश के मुताबिक, इस समय पांच से अधिक लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। शुक्रवार, 12 जून, 2020, सुबह 12:01 बजे से, प्रांत लोगों के एकत्र होने की सीमा को पांच से बढ़ाकर 10 लोगों तक करेगा। निवासियों के लिए, घर में उनके साथ न रहने वाले लोगों से हमेशा, कम से कम 2.0 मीटर (या छह फुट) दूरी कायम रखना जरूरी है।

सुविधाएं खुलने से कूड़े के लिए अतिरिक्त डिब्बे शामिल किए जाएंगे। साथ ही जरूरत के मुताबिक, अधिक निरीक्षण किए जाएंगे और अधिक बार कूड़ा एकत्र किया जाएगा।

छाया वाले और पिकनिक शेल्टर

शारीरिक दूरी रखने जैसे उपाय पहले की तरह रहेंगे। छाया वाले/पिकनिक शेल्टर्स में अधिक से अधिक संख्या के लिए सख्त सीमाएं होंगी, जो पार्कों में शेल्टर्स वाली जगह पर लगाए जाने वाले साइन बोर्डों पर साफ तौर पर लिखी होंगी।

निवासियों को छाया वाले शेल्टर्स का उपयोग करने के लिए अपनी खुद की कुर्सियां लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए सिटी का स्टाफ, मेजों और कुर्सियों तक पहुंच को सीमित करेगा। निवासियों को उपयोग के

बाद अपनी कुर्सियों को वापस घर लेकर जाना आवश्यक है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के पार्क में रातभर छोड़ी गई किन्हीं कुर्सियों को हटा के उनका निपटान कर दिया जाएगा।

इस समय, अगले नोटिस तक, पिकनिक शैल्टर्स और पार्कों की जगहों के लिए किसी बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्क

ब्रैम्पटन के चार, बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्कों में अधिकतम संख्या के लिए सीमाएं होंगी, जो लगाए जाने वाले साइन बोर्डों पर साफ तौर पर लिखी जाएंगी।

- ब्रैमली लिमिटेड कम्युनिटी पार्क (1030 विलियम्स पार्कवे) (Bramalea Ltd Community Park) (1030 Williams Parkway)
- क्रिस गिब्सन पार्क (135 मैकलॉगलिन रोड नॉर्थ) (Chris Gibson Park) (135 McLaughlin Road North)
- डुग्गन पार्क (73 वोडन स्ट्रीट ईस्ट) (Duggan Park) (73 Vodden Street East)
- व्हाइट स्प्रूस पार्क (10302 पार्ट लेक रोड) (White Spruce Park) (10302 Heart Lake Road)

ब्रैम्पटन के बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

पार्क्स एम्बेस्डर प्रोग्राम

निवासियों को शारीरिक दूरी जैसी गाइडलाइनों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित करना, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। 13 जून से शुरू करते हुए, वीकडेज (कार्यदिवसों) की रातों को और वीकेंड्स को, सिटी का स्टाफ अधिक भीड़ वाले पार्कों में निवासियों के पास जाकर, उन्हें वहीं पर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में सलाह देगा।

कार्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसिज (Corporate Security Services) लगातार पार्कों का निरीक्षण करेगा। जो व्यक्ति शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें ब्रैम्पटन कोविड-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law) के मुताबिक, उल्लंघन के प्रत्येक अपराध के लिए कम से कम \$500 का जुर्माना लगाया जाएगा। निवासियों से अनुरोध है कि वे इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की रिपोर्ट करने के लिए 311 पर फोन करें।

कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपाय

समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए, ब्रैम्पटन के पार्कों में शारीरिक दूरी जैसे ठोस उपाय लागू किए जाएंगे। निवासियों के लिए, घर में उनके साथ न रहने वाले लोगों से हमेशा, कम से कम 2.0 मीटर (या छह फुट) दूरी कायम रखना जरूरी है। सिटी, निवासियों से अनुरोध करती है कि वे हैंड सैनिटाइजर या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और किसी भी समय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) को संपर्क करने के लिए, 311 पर फोन करें।

हवाले

“चूंकि गरमी आ रही है, इसलिए हम समझते हैं कि निवासी अपने घरों से बाहर निकलकर ताज़ी हवा लेना चाहेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि हम तभी सुविधाओं को खोलें, जब ऐसा करना सुरक्षित हो। हमारे समुदाय का स्वास्थ्य और सुरक्षा लगातार हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। मुझे यकीन है कि निवासी गाइडलाइनों का सम्मान करेंगे और हमारे पार्कों का आनंद लेने के समय शारीरिक दूरी कायम रखेंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप के द्वारा, हमारी फैसिलिटीज और सुविधाओं को दुबारा खोलने के व्यापक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए, हम लगातार समुदाय के साथ अर्थपूर्ण विचारविमर्श कर रहे हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, निवासियों और सिटी के सारे स्टेकहोल्डर्स की जरूरतों में सावधानी से संतुलन कायम करना, हमारा उद्देश्य है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी की सेवाओं और फैसिलिटीज को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलना, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और हमारे स्टाफ की मुख्य प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए, लगातार सारे जरूरी कदम उठाएंगे कि हम सिटी की सेवाओं को जनता के लिए, ज़िम्मेदार और सुरक्षित तरीके से दुबारा खोल रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“गरमी का मौसम आ गया है। बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्कों जैसी आउटडोर जगहों को धीरे-धीरे दुबारा खोलने से, निवासियों को बाहर जाने का अवसर मिलेगा। इससे शारीरिक गतिविधि बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य में मदद मिलेगी, परंतु यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुविधाओं को दुबारा खोलने का यह अर्थ नहीं है कि हम सावधानी रखना बंद कर दें। निवासियों के लिए लगातार, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सलाह का पालन करना आवश्यक है। दूसरों से दो मीटर दूर रहना, इन जगहों पर लोगों और कुत्तों की अधिक से अधिक संख्या की सीमा का पालन करके भीड़ से परहेज़ करना, बार-बार और हर बार विजिट के बाद हाथ धोना और बीमार होने पर टेस्ट करवाना और घर में ही रहना, ये सभी उपाय आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं।”

- डा. लॉरेंस लोह (Dr. Lawrence Loh), इंटरिम मेडिकल अफसर ऑफ हेल्थ, पील पब्लिक हेल्थ

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca